



**icmr**  
INDIAN COUNCIL OF  
MEDICAL RESEARCH

**NIREH**  
NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH  
IN ENVIRONMENTAL HEALTH

आई सी एम आर – राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य  
अनुसंधान संस्थान  
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार  
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ICMR - National Institute for Research in  
Environmental Health  
Department of Health Research, Ministry of Health  
and Family Welfare, Government of India

**Advt. No. NIREH/HR/2023/02**

निम्नलिखित अस्थायी परियोजना के पद के लिए वॉक-इन-लिखित परीक्षा / व्यक्तिगत चर्चा में उपस्थित होने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, आवश्यक योग्यता, अनुभव और आयु रखने वाले उम्मीदवार **ICMR-NIREH**, भोपाल में वॉक-इन-लिखित परीक्षा / व्यक्तिगत चर्चा में दर्शाई गयी तिथी और समय पर भाग ले सकते हैं:

Applications are invited in the prescribed format ([available on our website https://nireh.icmr.org.in/](https://nireh.icmr.org.in/)) for appearing in the walk-in-written test/personal discussion for the following purely temporary project post, tenable at ICMR-NIREH for the period co-terminus with the project. Candidates possessing required qualifications, experience and age may attend the walk-in-written test/personal discussion at ICMR-NIREH, Bhopal on the dates **as indicated in schedule for walk-in written test/interview** along with the filled in application form and supporting documents in support of their date of birth, qualifications and experience. Other terms and conditions and date & time of walk-in-written test/personal discussions are also given here under:

<b>“Investigations on adsorptive removal of antibiotics from water” (P.I.- Dr. Vishal Diwan, Scientist-E ) duration initially for 12 months (can be extended up to 48 months depending on funds availability and performance of the candidate)</b>			<b>Max. Age limit</b>
Research Associate-I	Rs.47,000/-+ HRA as applicable per month .	01 (UR)	40 years
<b>Essential Qualifications:</b> Ph.D/MD/MS/MDS on equivalent degree or having 3 years of research, teaching and design and development experience after M.S./M.Pharma/ME/ M.Tech with at least on research paper in Science Citation Indexed (SCI) journal. <b>Desirable Qualifications:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Preference will be given to candidates having degree in Chemical Engineering / Inorganic Chemistry/Analytical Chemistry/Environmental Science / Environmental Engineering</li><li>• Research experience preferred in the field of adsorption and chromatographic studies and procedures</li><li>• Hands-on experience of various material characterization techniques</li><li>• Versed in scientific manuscript writing</li></ul>			
<b>“Development of a nano biosensor “HRIDAY” for early detection of cardiovascular disease biomarkers using poly-I-lysine tethered carbon nano dots” (PI: Dr. P. K. Mishra, Scientist-F) duration up to 06 months initially.</b>			<b>Max. Age limit</b>
Scientist-D (Non-Medical)	Rs.54,000/- p.m. (corresponding to PB-3 Rs.15600	01 (SC)	45 years
<b>Essential Qualifications:</b> Candidates should possess 1 <sup>st</sup> class Master Degree in relevant subjects from a recognized university with 8 years experience OR 2 <sup>nd</sup> Class M.Sc.+Ph.D. degree in relevant subjects from a recognized			

